

## प्रेस विज्ञप्ति दि० 04.11.2020

**\*एसओजी टीम एवं थाना सलेमपुर पुलिस के संयुक्त प्रयास से हत्या की घटना का पर्दाफाश, आलाकत्ल सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार\***

दि० 02.11.2020 को प्रातः ग्राम पड़री तिवारी थाना क्षेत्र सलेमपुर के पास एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई। प्राथमिक छानबीन पर मृतक व्यक्ति की पहचान रामबालक चौहान नि० ग्राम पड़री बनवाली थाना खुखुन्दू जनपद देवरिया के रूप में हुई, जिसके सिर व गर्दन में गोली लगी थी। इस संबंध में मृतक के पिता जगेश चौहान पुत्र स्व० मदन चौहान नि० पड़री बनवाली थाना खुखुन्दू देवरिया की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सलेमपुर पर मु०अ०सं० 202/2020 धारा 302 भादवि पंजीकृत कर विवेचना थाना सलेमपुर द्वारा प्रारम्भ की गयी। घटनास्थल के निरीक्षण के पश्चात् पुलिस अधीक्षक, देवरिया डॉ० श्रीपति मिश्र ने घटना के अनावरण हेतु एस०ओ०जी० टीम को भी लगाया। इस बीच वादी की तहरीर के आधार पर 03 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। तकनीकी छानबीन पर यह पाया गया कि यह घटना गांव की रंजिश का परिणाम नहीं है, बल्कि मृतक और अभियुक्त के बीच जमीन की खरीद-फरोख्त के संबंध में पैसे के लेन-देन का विवाद है। तकनीकी सहायता से पुलिस ने भरथुआ चैराहा थाना क्षेत्र खुखुन्दू के पास से घटना कारित करने वाले अभियुक्त मनीष यादव उर्फ छोटे यादव पुत्र रामजी यादव नि० ग्राम मुजरी खुर्द थाना खुखुन्दू देवरिया को आज दि० 04.11.2020 को गिरफ्तार किया है। पूछताछ से पता चला कि अभियुक्त और मृतक के बीच जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर पैसे के लेन-देन का विवाद था और मृतक बार-बार अभियुक्त से कुछ रूपये की मांग कर रहा था। दि० 01/02.11.2020 की रात मृतक ने अभियुक्त को बुलाया तो अभियुक्त ग्राम बड़हरा थाना खुखुन्दू के एक व्यक्ति की रिवाल्वर के साथ मृतक की मोटर साईकिल से सलेमपुर गया, जहां से रास्ते में आपसी विवाद पर उसने मोटर साईकिल चला रहे मृतक राम बालक के सिर में पीछे से गोली मार दी।

उपरोक्त घटना कारित करने के संबंध में अभियुक्त मनीष यादव उर्फ छोटे यादव उपरोक्त को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल 01 अदद पिस्टल 32 बोर व 01 अदद खोखा बरामद करते हुए थाना सलेमपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 202/2020 धारा 302 भादवि का सफल अनावरण कर अग्रेतर कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-\***

1. मनीष यादव उर्फ छोटे यादव पुत्र रामजी यादव नि० ग्राम मुजरी खुर्द थाना खुखुन्दू देवरिया

**\*बरामदगी का विवरण:-\***

1. 01 अदद पिस्टल 32 बोर व 01 अदद खोखा

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण:-\***

1. श्री नवीन मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक सलेमपुर

2. श्री गिरीजेश तिवारी, प्रभारी एसओजी

3. उ०नि०श्री अनिल यादव, एसओजी टीम

4. उ0नि0श्री संतोष सिंह, एसओजी टीम
5. का0 मेराज अहमद, एसओजी टीम
6. का0 प्रशांत शर्मा, एसओजी टीम
7. का0 विमलेश सिंह, एसओजी टीम
8. हे0का0 राजेश राय, थाना सलेमपुर
9. का0 नरेन्द्र यादव, थाना सलेमपुर
10. का0 सूर्यकान्स सिंह, थाना सलेमपुर
11. मका0 अंशिका त्रिपाठी, थाना सलेमपुर
12. मका0 बेबी रानी, थाना सलेमपुर

